

Subject English

25-05-2005

Class 5

Lesson 1 Chuskit Goes To School

Dear students

इस बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हर बार English story का summary English में ही देते थे but इस बार summary हिन्दी में दे रहे हैं ताकि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आ सके।

कल हम पढ़े थे कि Chuskit विद्यालय जाना चाहती है और पढ़ना चाहती है लेकिन school का रास्ता समतल एवं बराबर नहीं रहने के कारण वह अपने सपने को पूरा करने विद्यालय अपने wheel chair से नहीं जा सकती है। आज हमलोग देखेंगे कि Chuskit विद्यालय जा पाती है या नहीं।

एक शाम, Chuskit अपने दादाजी के साथ अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी एक लड़का उसके पास आया और उसने अपने हाथ में रखी चिट्ठी

दादाजी को दिया ।उसने दादाजी को julley कह के अभिवादन किया ।उस लडके ने कहा कि बस ड्राईवर ने उसे चिट्ठी आपलोगों को देने के लिए कहा ।

उस लडके ने Chuskit से कहा मेरा नाम अब्दुल है और मैं government high school में वर्ग 6 में पढता हूँ और मुझे तुमको देखकर अक्सर आश्चर्य होता है कि तुम विद्यालय क्यूँ नहीं जाते हो ।

Chuskit ne अब्दुल को पहले Juley कह के अभिवादन किया ।उसने कहा हा मैं school नहीं गयी हूँ कभी ।विद्यालय जाने का रास्ता बहुत ही उबर खाबड़ है और रास्ते में बहुत ही कंकड और पत्थर है ।मेरा wheel chair उस रास्ते में फस जायेगा ।मेरे parents को रोज इस रास्ते से ले जाने और लाने में बहुत ही समस्या होगी शायद सम्भव भी नहीं है ।

अब्दुल ने पूछा “ कया तुम विद्यालय जाना चाहोगे?”

Chuskit ने जबाब दिया “ क्यूँ नहीं “

जब मैं अपने भाई को बात करते हुए सुनता हूँ जो वो स्कूल में करते हैं तो मेरा मन भी विद्यालय जाने का करता है ।मेरा भी मन करता है कि मैं भी दोस्तों को बनाऊं उनके साथ खेलूँ ।uniform पहन के school जाऊं और परीक्षा भी दूँ ।आप विश्वास नहीं करेंगे सपने में तो कभी कभी bag लेकर स्कूल भी जाती हूँ और lunch भी दोस्तों के साथ करती हूँ ।अन्त में सुनते सुनते गुस्से में आकर दादाजी ने कहा “ enough! Enough ! Stop dreaming, Chuskit I you know you can not go to school “

Chuskit ने request करते हुए कहा pls दादाजी मैं पढना चाहती हूँ ।मैं school जाना चाहती हूँ परंतु दादाजी गुस्से में आकर वहाँ से चले गए ।

अब्दुल ने कहा “ Chuskit अब मुझे चलना चाहिए  
।मैं फिर तुमसे मिलूंगा ।Chuskit के आँखों में आंसू  
आ गये ।

कल आगे हम जानेंगे कि Chuskit school जा पाती  
है या नहीं ।अब्दुल मदद कर पाता है या सिर्फ  
Chuskit के दुख को सुन के रह जाता है ।

Home assignment:-

- Read the story and understand